



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2009/पौष 26, 1930
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2009/PAUSA 26, 1930

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क महानिदेशक (रक्षोपाय) का
कार्यालय

रक्षोपाय अन्वेषण के प्रारम्भ की सूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

विषय :—ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के
भारत में आयात से सम्बन्धित रक्षोपाय अन्वेषण का
प्रारम्भ ।

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण
नियमावली, 1997) के नियम 6 के अधीन]

सा.का.नि. 31(अ).—भारत में ओक्सो एलकोहॉल
(अकाईलिक अल्कोहल्स) के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप ओक्सो
एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के घरेलू उत्पादकों को होने
वाली गम्भीर क्षति से बचाने के लिए ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक
अल्कोहल्स) के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मैसर्स
आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, सैफाबाद, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश के
द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण)
नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन
प्रस्तुत किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग.—ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक
अल्कोहल्स) के घरेलू उत्पादकों की ओर से इस उत्पाद के आयात
पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु मैसर्स आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड,
सैफाबाद, हैदराबाद के द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यह
आवेदन भारत में ओक्सो अल्कोहॉल का अकेला उत्पादक है, जो कि
भारत के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है । घरेलू
उत्पादक, सैचुरेटेड (Saturated) ब्यूटन-1-ol (एन-ब्यूटाईल
एल्कोहॉल) का उत्पादन करते हैं, जो कि कस्टम टैरिफ नियमावली,
1975, आई.टी.सी. और एच.एस.एन. (HSN) संख्या 29051300 में
232 GI/2009

वर्गीकृत है । घरेलू उत्पादक 2-इथाईल हेक्सानॉन का भी उत्पादन
करते हैं जो कि कस्टम टैरिफ नियमावली, 1975, आई.टी.सी. और
एच.एस.एन. (HSN) संख्या 29051620 में वर्गीकृत है । साथ ही
घरेलू उत्पादक अन्य ब्यूटानॉल्स का भी उत्पादन करते हैं जो कस्टम
टैरिफ नियमावली, 1975, आई.टी.सी. और एच.एस.एन. संख्या
29051490 में वर्गीकृत हैं । इसका उत्पादन एकसार, परिष्कृत रेडियम
उत्प्रेरक की विद्यमानता में प्रोपिलीन और संश्लेषित गैस (कार्बन
मोनोआक्साइड और हाईड्रोजन का मिश्रण) की प्रतिक्रिया द्वारा किया
जाता है । यह उपर्युक्त प्रतिक्रिया सामान्य ताप और दबाव पर पूर्ण
किए जाते हैं ।

3. संबद्ध उत्पाद.—आवेदकों द्वारा भारत में ओक्सो एलकोहॉल
(अकाईलिक अल्कोहल्स) के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को
गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया गया है । जो उत्पाद इसमें शामिल
हैं वह निम्न हैं :—

वस्तु का नाम	कस्टम टैरिफ नियमावली, 1975 में वर्गीकृत
1	2
नेरमल ब्यूटनॉल (also know as NBA) और एन-ब्यूटील एल्कोहॉल, ब्यूटन-1-ओ.एल.	29051300
आई.एस.ओ. ब्यूटनॉल जिसे आई.बी.ए. और ब्यूटन-2-01 भी कहते हैं पेन्टीनॉल	29051400
2-इथाईल हेक्सानॉल (जिसे 2-ई.एच.ए. भी कहा जाता है)	29051620
सैब्यूटील	29051210
हेक्सानॉल	29051390

1	2
हेप्टानौल	29125000
ओक्टानौल और आई.एस.ओ. ओक्टानौल	29051690
नोनानौल और आई.एस.ओ. नोनानौल	29051990
डीकानौल और आई.एस.ओ. डीकानौल और	
अन्य मिश्रण	29051700

आवेदकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयात की जा रही वस्तुएं, भारत में उत्पादित वस्तुओं के प्रतिरूप/सामान या फिर प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रतिस्पर्धात्मक है। आक्सो एलकोहॉल का प्रयोग कर्मक/कच्ची सामग्री के तौर पर प्लास्टीसाईज़र उद्योग में होता है।

4. वर्धित आयात.—ओक्सो एलकोहॉल का आयात भारत में कोरिया गणराज्य, साउदी अरेबिया, यू.ए.ई., मलेशिया और अमेरिका से होता है। ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) का आयात वास्तविक रूप से एवं घरेलू उत्पाद सापेक्ष—दोनों ही प्रकार से आयात वृद्धि प्रदर्शित करता है। 2006-07 से 2007-08 में आक्सो एलकोहॉल के आयात में 63181 मीटर टन वृद्धि दर्ज की गई है। पुनः छः महीने में 2008-09 में यह वृद्धि देखने को मिली। आक्सो एलकोहॉल का 2004-05 से 2008-09 के प्रथम छः माह के दौरान आयात निम्नानुसार रहा :

आयात मात्रा मी. टन	आयात का अंश %	घरेलू उद्योग का अंश %	क्षमता का प्रयोग
2004-05	47812		
2005-06	47187	52.49 %	47.51 % 109.52 %
2006-07	52513	55.32 %	44.68 % 108.74 %
2007-08	63181	59.48 %	40.52 % 110.38 %
2008-09 (सितम्बर 08 तक)	32468	61.24 %	38.76 % 105.36 %
2008-09 (अक्टूबर 09)	12566	83.78 %	16.22 % 74.83 %

5. क्षति.—ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के वर्धित आयात से ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के घरेलू उत्पादकों को जिन कारणों से गम्भीर क्षति या उसकी आशंका है, वह निम्नानुसार है—

क घरेलू उद्योग का हिस्सा.—घरेलू उत्पादकों का 2005-06 से 2008-09 अक्टूबर तक के दौरान उत्पादन गम्भीर रूप से गिरावट की ओर रहा। आवेदक की एक इकाई जो मैसर्स आन्ध्रा पेट्रोकेमिकल्स सफियाबाद, हैदराबाद में स्थित है, उसे 8-11-2008 से 7-12-2008 की अवधि के दौरान बन्द कर दिया गया।

ख क्षमता का प्रयोग.—अक्टूबर, 2008 के दौरान घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमता के प्रयोग में भी गिरावट देखी गई है। यह गिरावट पुनः अधिक मात्रा में नवम्बर, 2008 में कारखानों के बन्द हो जाने के कारण देखी गई।

ग अन्य कारक.—अन्य कारण जैसे फयदा/नफा, नुकसान, कीमतों को भी ध्यान में लिया गया है।

6. घरेलू उत्पादकों ने ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के आयात पर चार वर्ष का रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की माँग की है। उन्होंने विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप अपूर्णाय क्षति की संभावनाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से तत्कालिक रक्षोपाय शुल्क लगाने की प्रार्थना की है।

7. आवेदन पत्र को जाँचा गया और पहली दृष्टि में यह पाया गया है कि ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के वर्धित आयात से ओक्सो एलकोहॉल (अकाईलिक अल्कोहल्स) के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति तथा गम्भीर क्षति की आशंका उत्पन्न हुई है, तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

8. सभी संबद्ध पक्ष इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर सकते हैं।

महानिदेशक (रक्षोपाय)
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
भाई वीर सिंह साहित्य सदन (द्वितीय तल)
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट,
नई दिल्ली-110001, भारत

टेलीफैक्स-91-11-23741542, 23741536
Email-dgsafeguards@nic.in

9. सभी ज्ञात संबद्ध पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

10. अन्वेषण से सम्बन्धित अन्य पक्ष जो संबद्ध पक्ष समझे जाने के इच्छुक हों, अपना आवेदन इस सूचना की तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास भेज दें।

[फा. सं. डी-22011/38/2008]

सर्वजीत सिंह राणा, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE NOTICE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 16th January, 2009

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub : Initiation of safeguard investigation concerning imports of Oxo Alcohols (Acylic Alcohols) into India.

G.S.R. 31(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Andhra Petrochemicals Limited, Saifabad, Hyderabad, Andhra Pradesh for imposition of Safeguard Duty on imports of Oxo Alcohols (Acylic Alcohols) into

India to protect the domestic producers of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) against threat of serious injury caused by the increased imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) into India.

2. Domestic Industry: The application has been filed by M/s. Andhra Petrochemicals Limited, Saifabad, Hyderabad for imposition of Safeguard Duty on imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols). The applicant is the sole producer of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) in India accounting for 100% of the total production. The domestic industries manufacture Saturated Butan-1-ol (N-Butyl Alcohol) classified under 2905 13 00 of HSN Customs Tariff Act, 1975 and ITC, 2Ethyl Hexanol classified under 2905 16 20 of HSN, Customs Tariff Act, 1975 and ITC and other Butanols classified under 2905 14 90 of HSN, Customs Tariff Act, 1975 and ITC. It is produced by reacting propylene with synthesis gas (a mixture of carbon monoxide and hydrogen) in the presence of homogeneous modified rhodium, catalyst. The reactions are carried out at moderate temperature and pressure.

3. Product Involved: The applicant has alleged serious injury and threat of serious injury to the domestic producers by the increased imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) into India. The products involved are :

Name of the Article	Classified under Customs Tariff Act, 1975
Normal butanol (also known as NBA) or n-butyl alcohols, butan-1-ol	29051300
Iso butanol (also known as IBA) or Butan - 2-ol	29051490
Pentylol	29051400
2-Ethyl Hexanol (also known as 2-EHA)	29051620
Sabutol	29051210
Hexanol	29051390
Heptanol	29125000
Octanol and Iso Octanol	29051690
Nonanol and Iso Nonanol	29051990
Decanol and Iso Decanol and Mixtures Thereof.	29051700

It has been contended by the applicant that the products involved are like or a directly competitive article to what is produced in India. Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) are mainly used as an agent/raw material in the Plasticizer Industry.

4. Increased Imports: Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) is imported into India from Republic of Korea, Iran, Saudia Arabia, UAE, Germany, Malaysia, and USA. The imports Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the domestic production. The imports show a surge from 2006-07 onwards and have increased drastically to 63181MT

in 2007-08 and six months trend during 2008-09 shows further increase. The imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) during 2004-05 to 2008-09 (first six months) are as under :

	Import Quantity (MT)	Share of Imports (%)	Share of Domestic Industry (%)	Capacity Utilization
2004-05	47,812			
2005-06	47,187	52.49%	47.51%	109.52%
2006-07	52,513	55.32%	44.68%	108.74%
2007-08	63,181	59.48%	40.52%	110.38%
2008-09				
(Upto Sept-08)	32,468	61.24%	38.76%	105.36%
2008-09				
(October-08)	12,566	83.78%	16.22%	74.83%

4. Injury: The increased imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) as a result of growing imports as indicated by the following factors:

- Share of Domestic Industry :** The share of domestic Industry is on steady decline during the period 2005-06 to 2008-09 (up to October 08) The plant of the applicant situated at M/s Andhra Petrochemical; Safiabad, Hyderabad has been shut down during the period 8-11-2008 to 7-12-2008.
- Capacity Utilisation :** The capacity utilization of the domestic industry has fallen down during the month of October 2008. There has been further fall in the capacity utilization during the month of November 2008 on account of closure of the plant.
- Other Factors :** Other factors, including price, profit and loss have been considered.

6. The domestic producer have requested for imposition of Safeguard Duty on imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) for a period of four years. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty in view of the prevailing critical circumstances leading to irreparable damage.

7. The application has been examined and it is found *prima facie* that increased imports of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Oxo Alcohols (Acyclic Alcohols) and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

8. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to : —

The Director General of Safeguards
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg, Gole Market,
New Delhi-110 001 INDIA.
Telefax: 23741542/23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

9. All the known interested parties are also being addressed separately.

10. Any other party who wishes to be considered as an interested party may submit its' request so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/38/2008]

S. S. RANA, Director General